



**राजस्थान राजपत्र
विशेषांक**

**RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary**

साइरिक प्रकाशित

Published by Authority

आश्विन 1, सोमवार, शके 1941—सितम्बर 23, 2019

Asvina 1, Monday, Saka 1941—September 23, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT

ORDER

Jaipur September 06, 2019

F.10 (Elec) LSG/19/8944 .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Council Dungarpur has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Council Dungarpur. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer .

**By Order,
Ujjwal Rathore,
Joint Secretary to Governement.**

**कार्यालय नगरपरिषद् डॉगरपुर (राजस्थान)
प्रोफार्मा "क"**

| क्र.स. | वार्ड संख्या | वार्ड के सीमांकन का विवरण |
|--------|-----------------|---|
| 01. | 1 | रेल्वे पुलिये के पास पीडब्ल्यूडी गोदाम को लेते हुए दायी ओर रेल्वे क्वार्टर एवं दायी ओर सरकारी स्कूल को शामिल करते हुए दायी ओर के समस्त क्वार्टर को लेते हुए मेन रोड आगे और समस्त रेल्वे क्वार्टर को शामिल करते हुए आगे रोड क्रोस कर समस्त राजपुर गांव की समस्त कोलोनी को शामिल करते हुए वापस मेन रोड वाटरवर्क्स का ऑफिस शामिल करते हुए मेन रोड दायी ओर पुराना चुंगी नाका को लेते हुए पुलिये के पास जलदाय विभाग के क्वार्टर शामिल करते हुए नया होस्पीटल रोड क्रोस कर दायी ओर वर्खेचन्दजी शाह की दुकान व कौशल्या आवतानी का मकान प्रताप नगर की समस्त आबादी को छोड़ते हुए मुख्य सड़क के दाहिनी ओर रेल्वे बाउन्ड्री के सहारे - सहारे दाहिनी ओर रेल्वे गोदाम रेल्वे स्टेशन डाक पार्सल ऑफिस को शामिल करते हुए पुनः रोड क्रोस कर PWD गोदाम पर समाप्त। |
| 02. | 2 | नवाडेरा चौराहे से कस्बे में जाने वाली सड़क के दाहिनी ओर दिल्ली सेन्ट्रल विद्यालय से शुरू होकर श्री रामलाल, देवीलाल पाटीदार निवासी नवाडेरा के नये |

| | | |
|-----|---|---|
| | | <p>मकान को लेते हुए, श्री हनुमान मंदिर से आगे चलकर आदिनाथ दिग्म्बर जैन मंदिर का चौराहा से दाहिनी ओर के समस्त मकान को लेते हुए गणपति चौराहा को क्रोस कर दाहिनी ओर शेखों के मकान एवं अब्दुल गफकार के मकान को लेते हुए, इनायत शेख आदि के मकानों को लेकर श्री रमेश पाटीदार के मकान को लेकर बाईपास रोड के बायी तरफ आई.सी.डी.एस. का कार्यालय एवं पूलिस क्वार्टर को छोड़कर आई.सी.डी.एस. कार्यालय के पास गाड़िया लौहारों के मकान को लेते हुए दाहिनी ओर टी.ए.डी. क्वार्टर को लेते हुए श्री अग्रवाल समाज के भूखण्ड को लेते हुए साबेला तालाब को छोड़कर उसके दाहिनी ओर श्री अमृतलाल पिता श्री पोपटलाल डामोर के मकान को लेते हुए बायी ओर हलिया कटारा निवासी नवाडेरा के मकान को शामिल करते हुए रतनपुर मुख्य मार्ग के दाहिनी ओर के समस्त मकान को लेकर छगनलाल जैन नागदा की दुकान, मकान को लेकर सीताराम जांगिड के दुकान, मकान के लेते हुए आगे दिल्ली सेन्ट्रल विद्यालय के पास आकर समाप्त।</p> |
| 03. | 3 | <p>श्री जीवा पिता स्व. श्री मनजी भगत आदिवासी निवासी नवाडेरा चौराहा के पास के मकान, मन्दिर से होते हुए, श्री रमणलाल एवं मूलचन्द कलाल के मकान को लेते हुए, श्री नगीनलाल जैन के मकान को लेते हुए, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को लेते हुए श्री चन्दुलाल जैन के मकान को लेते हुए, सड़क को पार कर शेखों की मस्जिद को लेते हुए बायी ओर समस्त मकान को लेते हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल सामुदायिक भवन को लेते हुए, गाड़िया लौहारों के निःशुल्क मकान को लेते हुए बायी ओर बाईपास रोड होते हुए नगरपरिषद् की निःशुल्क कियोस्क को लेते हुए, कियोस्क के सामने दाहिनी ओर श्री मोतीलाल खटीक की दुकान से दाहिनी ओर नगरपरिषद् की नवाडेरा आवासीय योजना का श्री गनी भाई शेख घांची का मकान लेते हुए मोक्षधाम की तरफ जाने वाले मार्ग पर इसी योजना के श्री सुर्यवीरसिंह ठेकेदार एवं श्री अब्दुल जब्बार मुसलमान के मकान को लेते हुए, सामीतेड रोड के बायी ओर समस्त आदिवासियों के मकानों को लेते हुए उदयपुरा के श्री विरजी पिता थावरा अहारी आदि के मकानों को छोड़ते हुए, सुरपुर मोक्षधाम चार रास्ता के बायी ओर व दाहिनी ओर के आदिवासियों के समस्त मकानों को लेते हुए, बायी ओर बालिका विद्यालय को लेते हुए दाहिनी ओर रामलाल पाटीदार की होटल को लेते हुए आगे चल कर बाईपास रोड के दाहिनी एवं बायी तरफ के समस्त आदिवासियों के मकानों को लेते हुए बाईपास के दाहिनी ओर एल. एस. पैलेस रिसोर्ट को, सैनिक होस्पीटल डी.पी.एस. विद्यालय को छोड़कर बाईपास रोड से बायी ओर शहर की ओर जाने वाले मार्ग (झूँगरपुर-रतनपुर मार्ग) से होते हुए राज पैलेस होटल को लेते हुए बायी ओर श्री तुलसीराम जांगिड की दुकाने, यामाहा शौरूम को लेते हुए वरदान विद्यालय के बाहर की सभी दुकाने को लेते हुए, श्री हुसैनी बोहरा कॉम्प्लेक्स से आगे चल कर</p> |

| | | |
|-----|---|--|
| | | सुधार की आरा मशीन को शामिल करते हुए श्री जीवा पिता मनजी भगत नवाडेरा के मकान पर समाप्त। |
| 04. | 4 | रतनपुर रोड पर स्थित चुंगीनाका से प्रारम्भ होकर दायी ओर मुडते हुए वे ब्रीज वन विभाग क्वार्टर एवं कार्यालय के पास आबादी को लेते हुए फायर स्टेशन डीपीएस स्कूल के आसपास की आबादी को लेते हुए आगे चलकर दायी ओर मुडते हुए उदयपुर गांव की रेवेन्यु बाउन्ड्री के अंदर की समस्त आबादी को लेते हुए रतनपुर मुख्य सडक दायी ओर स्थित श्री गुरुप्रसाद जी पटेल के मकान को लेते हुए रोड क्रोस कर पातापुरा की समस्त रेवेन्यु बाउन्ड्री आदिवासी एवं राजपुतों के मकानों को लेते हुए टेक्सकेम फेकट्री एवं इसकी कोलोनी की समस्त आबादी एवं फेकट्री के पीछे की रेवेन्यु बाउन्ड्री में समस्त पातापुरा की आबादी को लेते हुए झंगरपुर जाने वाली मुख्य सडक पर बायी ओर मुडकर पावर प्लान व सिन्टेक्स फेकट्री रतनपुर रोड उसके आसपास की आबादी को लेकर रतनपुर चुंगी नाका पर समाप्त। |
| 05. | 5 | नवाडेरा चैराहे पर श्री त्रिलोक चंद नागदा के मकान से शुरू होकर रतनपुर मुख्य सडक के बायी ओर मणीलालजी नागदा के मकान व दुकानों को लेते हुए श्री सुशीलजी कटारा अमृतलालजी रोत के मकान के आसपास की बायी ओर की समस्त आबादी को लेते हुए संतोष हेवी इन्जीनियरिंग कारखाना मांगीलाल पंचाल का लेते हुए बायी ओर थावरा भाई के मकान को लेकर बायी ओर चलते हुए पुराना चुंगीनाका के आस पास की आबादी आदिवासियों के मकान शामिल करते हुए रमा कुंवर स्कूल को लेते हुए झंगरपुर की रेवेन्यु बाउन्ड्री होते हुए मुरला गणेश मंदिर रोड के सामने समस्त आबादी को लेते हुए चंद्रवीर सिंह चैहान के मकान को लेते हुए पातेला तालाब पर स्थित दरगाह के पास बायी ओर मुडकर समस्त यादवों की मगरी नरेन्द्र जमादार के मकान के आस पास की आबादी को लेते हुए कब्रस्तान से चांदपोल रोड पर स्थित संतोष जोगी के मकान एवं स्लाटर हाउस होते हुए कोतवाली पुलिस क्वार्टर एवं स्कूल को लेते हुए रोड क्रोस कर वापस नवाडेरा जानेवाले रोड पर बायी ओर मस्तान बाबा की दरगाह एवं जलदाय विभाग की टंकी लेते हुए सोमाभाई के मकान एवं बायी ओर की आबादी को लेकर नवाडेरा चौराहा पर त्रिलोकचंदजी के मकान पर समाप्त। |
| 06. | 6 | पातेला नरसरी रोड के सामने दाहिनी ओर फखरुद्दीन बोहरा के कोम्प्लेक्स को लेते हुए आगे चलकर बायी ओर श्री सज्जाद अली पिता अजगर अली का मकान लेते हुए आगे अब्दूल मजीद भीस्ती का मकान लेते हुए बायी ओर चलकर सडक क्रोस कर शाहनवाज पिता जूल्फिकार का मकान लेकर आगे चलकर बायी ओर शाबीर भाई का मकान लेते हुए मीरा झंगरी पर स्थित दरगाह को लेते हुए मीरा झंगरी के पीछे की तरफ विक्रम यादव पिता भाणाराम का मकान लेते हुए बायी ओर के समस्त मकानों को शामिल करते हुए अब्दूल पिता मुसाजी घांची का मकान को लेकर सडक पार कर दाहिनी तरफ हजरत मोहम्मद हुसैन सहीद की दरगाह को लेकर पातेला की राजकीय डिस्पेन्सरी व नानी पत्नि अमरा रोत के मकान को |

| | | |
|-----|---|--|
| | | लेते हुए बोहरा समाज की सैफिया विद्यालय को लेकर सेंट पेट्रिक विद्यालय को लेते हुए राजकीय बालिका मा.वि. लोहारवाड़ा की स्कूल को लेते हुए, गीता देवी आहारी नारायणलाल मगनलाल खटीक का मकान शामिल करते हुए राज् भाई भोई का मकान से आगे चलकर बायी तरफ का दलपत सिंह पिता नाथूसिंह का मकान को लेकर बायी तरफ से आगे चलकर अमन्ना बाई नर्स का मकान को लेकर पातेला नर्सरी के पीछे के समस्त मकानों को लेते हुए बायी तरफ बोहरो के मकान को शामिल करते हुए अयूब मंसूरी वकील के मकान को लेकर नर्सरी की दिवार सहारे सहारे सड़क पार कर फखरुद्दीन बोहरा के काम्प्लेक्स पर समाप्त। |
| 07. | 7 | पातेला मोहम्मद याकुब पिता अमीर खान के मकान से शुरू होकर मांगीलाल लोहार के मकान को लेकर धूलजी व नाथू यादव के मकान को लेकर गटू पिता शंकर एवं मांगीलाल यादव के मकान को लेकर नियाज मोहम्मद एवं जमील खान के मकान को लेकर सोल्वर भैया के खण्डहर मकान को लेकर सड़क क्रोस कर सीधे मीरा झूंगरी के उपर पीएचईडी विभाग की पानी की टंकी को लेते हुए मोहसीन खान के मकान से चलकर बायी तरफ मोहम्मद इस्तियाक के मकान को लेते हुए कचरलाल पिता अमरा हरीजन का मकान को शामिल करते हुए बायी ओर आगे चलकर सुरेश पिता बंशीलाल का खण्डहर मकान लेते हुए सड़क को क्रोस कर हरीजन समाज के अम्बा माता मंदिर को लेते हुए बायी तरफ आरीफ का मकान लेते हुए बापा स्कूल के पीछे के भाग की दिवार को लेकर याकुब भाई का मकान शामिल करते हुए बायी तरफ चलकर फखरुद्दीन पिता कुर्बान हुसैन बोहरा के आगे श्री याकुब अमीर खा पातेला के मकान पर समाप्त। |
| 08. | 8 | नवलश्याम की हवेली से शुरू होकर भीणडावाली हवेली को लेकर बायी तरफ के समस्त मकानात लेकर राधाकिशन मंदिर को लेकर वहा से रास्ता क्रोस कर भगवानदासजी ठेकेदार के मकान को शामिल कर जसवंत सिंह ड्राईवर के मकान को लेकर वहा से खाटवाड़ा जाने वाली गली तरफ मुड़कर बायी ओर के मकानात लेकर नाथीबाई भोई व नानुरामजी माली के मकान को लेकर गली क्रोस कर मालीवाड़ा में स्थित नया विद्यालय भवन को लेकर पहाड़ी की तलहटी होकर देवीलालजी माली, लक्ष्मण दरोगा एवं लक्ष्मण के मकान को लेते हुए नारायण व बसन्तलाल सोमपुरा के मकान को लेकर बायी ओर के मकान लेकर हरिप्रसाद व लक्ष्मीचंद सुथार के मकान को लेकर बायी ओर के समस्त मकान लेकर बदामीलाल शाह के मकान को लेकर राधेश्याम भट्ट व शिवलाल निहालचंद सोमपुरा के मकान को लेकर वहाँ से रास्ता क्रोस कर पुरानी राजपुर बार्डिंग लेकर बायी ओर के मकान कमलाशंकर कारपेन्टर के मकान को शामिल कर वहाँ से गली क्रोस कर चुन्नीलाल सोमपुरा की गली में बायी ओर के मकान एवं उत्सवलाल शर्मा के मकान को लेकर नानालाल सुथार के मकान होते हुए सीधे नवलश्याम की हवेली पर समाप्त। |
| 09. | 9 | हनुमन्त पोल से शुरू होकर बायी ओर घाटी मस्तिष्क को लेकर रत्नलाल वकील के मकान को लेकर रास्ता क्रोस कर खाड़ीया जाने वाली गली में होकर |

| | | |
|-----|----|--|
| | | शिवनारायण चौबीसा, भोपालसिंह का मकान लेते हुए दिलावर खां के मकान को शामिल कर वहाँ से मेन फौज के बड़ले जाने बाले रोड के बायी ओर होते हुए जवाहरलाल वकील व बिहारीलाल कोठारी की दुकान व मोहनलाल शाह के मकान को लेकर मेहता दुध डेयरी व पान की दुकान लेकर पुरानी कोतवाली जाने वाले रास्ते की दायी ओर की दुकान व मकान शामिल कर वापस मुत्र गली में मुड़कर बनवारीलाल मेहता व फुलचंद शाह एवं नाथूलाल पोरवाल के मकान को लेकर मंदिर रणछोड़जी को शामिल कर वहाँ से रास्ता क्रोस कर महालक्ष्मीजी मंदिर होते हुए देवचंद दर्जी का मकान लेते हुए सुमतीलाल दावडा के मकान तक तथा इस मकान को शामिल कर मुख्य रास्ता को क्रोस कर धनराज कोठारी, नाथूलाल वखारीया के मकान को लेते हुए रजनीकान्त के मकान को लेते हुए कांतिलाल भट्ट के मकान को लेकर बायी तरफ गली में मुड़कर जयन्तिलाल छापिया के मकान को लेते हुए पुरणमल साधु के मकान को लेते हुए रामसिंह रावल के मकान तथा हेमेन्द्र रावल के मकान सीधे मालीवाडा की सार्वजनिक शैचालय को लेते हुए लालचंद सिंधी के मकान को लेते हुए पानी की टंकी से होकर पहाड़ी की तलहटी से महल की तरफ आकर हनुमन्त पोल पर समाप्त। |
| 10. | 10 | जूना महल को शामिल करते हुए सड़क को पार कर दाहिनी ओर आगे चलकर नीचे उतरकर रा. देवेन्द्र उ.मा.वि. को लेते हुए महेशजी पुरोहित के मकान को शामिल करते हुए जेलखाना विद्यालय को छोड़ते हुए रोड क्रोस कर खाड़िया में जाने वाली गली में होकर दाहिनी तरफ हेडपम्प को लेकर दाहिनी ओर के समस्त मकानों के लेते हुए महेन्द्र सिंह सोलंकी के मकान को शामिल करते हुए देवेन्द्र विद्यालय के पीछे की दिवार को शामिल करते हुए मोहम्मद निसार के मकान को लेते हुए मोहम्मद इरफान के मकान को शामिल करते हुए दाहिनी तरफ मुड़कर जैन मंदिर को शामिल करते हुए राम बाव को लेते हुए घांटी नाल को शामिल करते हुए राजा बाबू चौबीसा के खण्डहर मकान को शामिल करते हुए शहजादा खान का मकान को लेते हुए दाहिनी तरफ मुड़कर उपर की ओर कार्नर की सीढ़िया चढ़कर इम्तियाज गोरी के मकान को लेकर मदारफली (नीम के नीचे) को लेकर चौक से दाहिनी ओर के मोहम्मद हमीद पिता नाशीर खान के मकान को लेकर मेहमुद खान पिता नूर मोहम्मद के मकान को लेकर जूना महल रोड क्रोस कर दाहिनी ओर अब्दुल हफीज पिता अब्दुल रहमान के मकान को लेकर उपर की ओर दाहिनी ओर की धनमाता पहाड़ी के तलहटी की समस्त आबादी को लेकर जूना महल पर समाप्त। |
| 11. | 11 | घांटी दरवाजे से धनमाता पहाड़ी के तलहटी की समस्त दाहिनी ओर की आबादी को लेकर पहाड़ी से नीचे दाहिनी उदय बाव एवं निसार ए हाली स्कूल आदि, मोहम्मद रईस पिता मकबूल अहमद पठान के मकान को लेकर जूना महल रोड को क्रोस कर नीचे की ओर मोहम्मद हसीम पिता फेज मोहम्मद मकरानी का दाहिनी ओर मकान लेकर अब्दुल रउफ पिता अब्दुल कर्यूम को लेकर नीचे मुख्य मार्ग पर उतरकर दाहिनी ओर अताह मोहम्मद पिता गुलाम मोहम्मद के |

| | | |
|-----|----|--|
| | | मकान से फौज के बड़ले की ओर रास्ते रास्ते कन्हैयालाल चौबीसा के मकान को शामिल करते हुए माणकचन्द की गली (गुंटी) को क्रोस करते हुए आगे चलकर चौबीसा समाज का मंदिर को शामिल करते हुए लांबा ओटला की गली को क्रोस करते हुए आगे चलकर दाहिनी तरफ मुड़कर मोहम्मद हरदिल अजीज कुरेशी का मकान शामिल करते हुए आगे चलकर सुनील पिता सुर्यकान्त चौबीसा का मकान शामिल करते हुए बायी ओर मोहम्मद नाजीन पिता मोहम्मद कासीम का मकान छोड़ते हुए दाहिनी तरफ के समस्त मकानों को शामिल करते हुए उपर की ओर सड़क पार कर बायी ओर मोहम्मद रफीक एवं मोहम्मद मदनी के भाईयों के मकानों को छोड़ते हुए दाहिनी तरफ मोहम्मद अनिस एवं मोहम्मद साजिद का मकान शामिल करते हुए पहाड़ी की तलहटी से होते हुए दाहिनी तरफ के समस्त मकानों को शामिल करते हुए घांटी दरवाजे पर समाप्त। |
| 12. | 12 | जांबुआ चौक मोहम्मद रिजवान पिता मो. इकबाल बायी ओर की तरफ चलकर मोहम्मद नाजिम पिता कासीम के मकान को शामिल करते हुए बायी तरफ मो. रफीक व मो. मदनी के मकान को शामिल करते हुए पहाड़ी की तलहटी बायी ओर के समस्त मकानों को लेते हुए आमीर खा. नबु खां इकराम खा. ग्राम सेवक के मकान को लेकर एकदम बायी तरफ मुड़कर दरे की ओर उत्तरते हुए बायी तरफ के सभी मकानों को शामिल करते हुए फौज का बड़ला राधा कृष्ण जी का मंदिर घांटी मेन रोड पर आकर बायी ओर समस्त मकानों को लेते हुए गंगाशंकर वकील का मकान शामिल करते हुए मोहम्मद रिजवान के मकान पर समाप्त। |
| 13. | 13 | जैन मंदिर माणक चौक से प्रारम्भ होकर फौज के बड़ले की ओर जाते हुए गांधी जी की पोल को लेते हुए हल्वाई की दुकान लेकर गली में मुड़कर बायी ओर मुड़कर स्व. युनुस ठेकेदार के मकान को लेकर पहाड़ी तक फिर वहाँ से मुड़कर पहाड़ी की तलहटी तलहटी होकर मस्जिद पठान के मकान को लेकर वहाँ से रास्ता क्रोस कर देवीसिंह सिसोदिया एवं कल्लु भाई ड्राईवर के मकान को लेकर गली क्रोस कर सोहनलाल पटवारी के मकान को लेकर इंजीनियरिंग की गली में होकर श्री चन्द्रभाई सरेया के मकान को लेकर गौतम लाल भट्ट के मकान शामिल कर मेन रोड मुड़कर बायी ओर सोनिया चौक कृष्णा टोकिज होते हुए खड़ायता स्टोर को शामिल कर माणक चौक जैन मंदिर पर समाप्त। |
| 14. | 14 | पुरानी राजस्थान बैंक (माणक चौक) से शुरू होकर प्याड़ को लेकर बीकानेर मिष्ठान भण्डार से सीधे मेन रोड पर चलते हुए जनता प्रिन्टिंग प्रेस को लेते हुए पान की दुकान लेकर बायी ओर छीपा गली में मुड़कर बायी ओर के समस्त मकानों को लेकर केसरीमल जैन के मकान को लेकर वहाँ बायी ओर मुड़कर बायी ओर के समस्त मकान लेकर बलदेव भावसार को मकान लेकर भावसारों का मंदिर लेकर बानु बाई की दुकान शामिल कर गली क्रोस कर सामने फारूक बोहरा चुण्डावाडा वाले के मकान को लेकर हरूमल सिंधी की दुकान शामिल कर वहाँ से बायी ओर मुड़कर रास्ते रास्ते बायी ओर के समस्त मकानों को लेकर |

| | | |
|-----|----|---|
| | | कन्हैयालाल हल्वाई की दुकान व कांतिलाल मेहता की दुकान शामिल करते हुए युनानी दवाखाना पुरानी राजस्थान बैंक पर समाप्त। |
| 15. | 15 | नवलश्याम की हवेली के सामने प्रकाशचन्द्र शकुनी के मकान से शुरू होकर सलाटवाडा के गली में चलकर बायी तरफ के मकानों को लेकर पन्नालाल व मदन आनन्द के मकान को लेकर १याम स्वरूप साधु के मकान को लेकर वहाँ से बायी और गली में मुड़कर इच्छानाथ भट्ट के मकान एवं शांतिनाथ कम्पाउन्डर एवं मगनलाल शाह के मकान को लेकर वहाँ से रास्ता क्रोस कर नटवरलाल शाह के मकान को लेकर सुथारों के मंदिर को लेकर मोहनलाल दोशी के मकान, दुकान को लेते हुए आगे बायी और मुड़कर पन्नालाल टेलर के मकान को लेकर आयुर्वेदिक वितरण केन्द्र को लेकर हुकमल जैन के मकान को लेकर मुत्र गली से मुड़कर बायी और के मकान लेकर शांतिलाल मेहता के मकान को लेते हुए हीरालाल मेहता के मकान को लेकर दर्जीवाडा की ओर मुड़कर कानेरा पोल की ओर मुड़कर खड़ायतों के मंदिर तक बार्यों और के सभी मकानों को लेकर बायी और मुड़कर नटवरलाल दर्जी के मकान को लेते हुए दोलेचन्द्र पोला के मकान को लेते हुए बायी और के सभी मकान को लेकर प्रकाशचन्द्र शकुनी के मकान पर समाप्त। |
| 16. | 16 | आयुर्वेद औषधालय से शुरू होकर कुरीचंद पंचाल के मकान को लेकर दाहिनी ओर के समस्त मकानों को लेकर नोहरा पंचाल जवाहर बाल मंदिर से चलते हुए सुखलाल शंकरलाल राठोड के मकान को लेते हुए वखेचंद के मकान को लेते हुए आगे चलते हुए भगवानदास ठेकेदार के मकान को लेते हुए शिवसिंह भाटी के मकान को लेते हुए आगे बायी और मुड़कर पारी वाले ठाकुर साहब के मकान को लेते हुए माधवसिंह भाटी की दुकानों सोमपुरा टेलर से लेकर सब्जी मंडी तक बायी और के समस्त मकानों को लेते हुए आयुर्वेदिक औषधालय पर समाप्त। |
| 17. | 17 | श्री नाथूलाल साद के मकान से शुरू होकर रोड क्रोस कर बायी और जरीब खां का मकान लेकर, सीरत कमेटी (सब्जी मंडी पुरानी तरफ) बायी तरफ चलते-चलते सेफिया स्कूल को शामिल कर उदय बाजार के बायी तरफ चलते-चलते मोहसीन बोहरा के मकान लेते हुए आगे चलकर बायी तरफ मुड़कर चांदपोल रोड से आगे चलकर कोर्नर राजेन्द्र कुमार (पानवाले) गुड़ू भाई शेख का मकान लेकर बायी तरफ मुड़कर नाईवाडा रोड (गली) में इकबाल खां मेवाफरोश के मकान को शामिल कर आगे की ओर पंच नाई भाटिया समाज के नोहरे को शामिल कर बायी तरफ कानजी भाई नाई के मकान व गोपाल पिता गणेश के मकान को शामिल कर बायी तरफ आशा पत्नि रमेश नाई का मकान लेते हुए हनीफ भाई शेख का मकान लेकर लालपुरा जमातखाना को शामिल करते हुए सिद्धिक कुरेशी का मकान लेते हुए बायी तरफ की समस्त आबादी को शामिल करते हुए आगे सज्जाद भाई बोहरा का मकान लेते हुए बाबू भाई शेख व गौतमलाल साद का मकान लेकर दाहिनी तरफ मुड़कर बायी तरफ हनीफ भाई पेन्टर का मकान लेते हुए दाहिनी तरफ अब्दुल गनी का मकान छोड़ते हुए बायी तरफ आगे चलकर |

| | | |
|-----|----|---|
| | | निसार एहमद उर्फ छोटे मिया के मकान को लेकर नूर आलम खां पठान के मकान को लेकर बेहराम खान पठान के मकान को लेकर मुस्ताक एवं मुनेवर खां के मकान को लेकर अब्दुल गफर के मकान को लेकर इसकी पिछे की गली में उस्मान खान के मकान को लेकर गली की बायी ओर जाफर खा ड्राईवर के मकान को लेकर हसन खा कम्पाउन्डर के मकान को लेकर शंकर भाणा हरीजन के मकान को लेकर गली क्रोस कर मदन पिता रामा हरिजन के मकान को लेकर मगन जादू के मकान को शामिल कर लक्ष्मी पत्नि रामा हरीजन के मकान को लेकर नगरपरिषद् द्वारा निर्मित शोचालय को लेकर रामा पिता रूपा यादव का मकान लेकर रत्ना पिता भेरा यादव के मकान को लेकर शंकर यादव के मकान व वल्मा पिता धूला यादव एवं भूरा पिता वाला यादव के मकान को लेकर लालचंद पिता वाला यादव के मकान को लेकर व जीवा पिता कालू यादव के मकान को लेकर हीरा पिता मंगला यादव के मकान को लेकर मांगीलाल पिता वालजी पंचाल के मकान को लेकर किशनलाल गर्ग का पुराने मकान को लेकर वखतराम पिता किशनलाल गर्ग के मकान को लेकर खुदाबक्श का मकान लेकर वहाँ से प्रभुलाल गर्ग के मकान को लेकर सेफुद्दिन भण्डारिया वाला बोहरा की दुकान लेकर हातिम अली की गोदाम लेकर रूपलाल साद की दुकान को लेकर वहाँ से सीधा रस्ता क्रोस कर नाथूलाल साद के मकान पर समाप्त। |
| 18. | 18 | हाजी हूसेन भाई शेख के मकान से शुरू कर इब्राहीम भाई शेख का मकान लेते हुए कर्यम लाला मेवाफरोश का मकान लेते हुए चांदपोल तक बायी तरफ हाजी कालू का मकान लेते हुए बायी तरफ शहरपना में अच्युब का मकान लेते हुए हसन खां कम्पाउन्डर का मकान लेते हुए बायी तरफ की समस्त आबादी को शामिल करते हुए उस्मान भाई टेम्पो वाले का मकान शामिल कर हांजी मुनेवर खां का मकान लेते हुए नूर आलम खां पठान का मकान लेते हुए निसार अहमद का मकान शामिल करते हुए आगे चलकर बायी तरफ की समस्त आबादी को शामिल करते हुए बायी तरफ मुड़कर गनी भाई शेख का मकान लेते हुए जूल्फकार अली सैयद का मकान लेते हुए साबीर मेवाफरोश (साबीर ज्यूस वाले) का मकान लेते हुए प्रहलाद नाई का मकान लेकर बायी तरफ हुसैन भाई शेखों के मकान पर समाप्त। |
| 19. | 19 | चांदपोल कोतवाली से प्रारम्भ होकर शहर में सब्जी मार्केट के रास्ते के बायी ओर के जामा मस्जिद एवं खटीको के मकानों को लेते हुए कलालो के मंदिर तक वहाँ से भोईवाडा गली में मुड़कर भोईवाडा जाने वाले रास्ते रास्ते के बायी ओर के मकान शामिल करते हुए सुरेश भोई व भोईयों के निलंकंठ महादेव मंदिर से नारायणलाल भोई के मकान को शामिल करते हुए नारायण/दोला भोई के मकान को लेकर मांगीलाल भगवान भोई व समस्त भोईयों के मकानों को लेकर वहाँ से सहर पनाह होकर बोहरा कब्रस्तान को शामिल करते हुए चांदपोल कोतवाली पर समाप्त। |
| 20. | 20 | पुरानी कोतवाली आयुर्वेदिक अस्पताल से शुरू होकर मोचीवाडा जाने वाले रास्ते- |

| | | |
|-----|----|---|
| | | रास्ते बायी ओर के मकानों को लेकर नाथुलाल पोरवाल की दुकान से मुख्य रास्ता क्रोस कर मणीलाल माणकलाल की दुकान होकर छीपा गली में मुड़कर बायी ओर की समस्त बोहरा आबादी हेदर अली गुलाम अब्बास बोहरा के मकान को लेकर भावसार वडा गली होकर छोटालाल भावसार व सुरजमल भावसार के मकानों को शामिल कर पन्नालाल नागदा व चंपालाल भावसार के मकान को शामिल कर हगाणी बाई सोनी के मकान तक वहाँ से मुख्य रास्ता क्रोस कर हैदर अली बोहरा के मकान को लेकर रोस्ते रास्ते बायी ओर बलदेव भावसार घांचीयों का नोहरा एवं मस्जिद लेकर वहाँ से फरासवाडा जानेवाले रास्ते के बायी ओर के समस्त मकानों को लेकर बायी ओर गली मुड़कर शरीफ खां के मकान को लेकर बायी ओर गली मुड़कर हाजी नज्जु खां के मकान एवं अब्दुल मजीद ड्राईवर के मकान को लेकर भोईवाडा जाने वाले रास्ते रास्ते भोईयों की आबादी की ओर की वाडियो को शामिल कर भोईयों का नोहरा लेकर बोहरा साले मोहम्मद ठेकेदार एवं बाकेर अली बोहरा के मकान तक वहाँ से गली क्रास कर भोगजी कलाल के मकान को लेकर केशवलाल की चक्की लेकर याकूब अली बोहरा के मकान तक वहाँ से बायी ओर का रास्ता मुड़कर समस्त बायी ओर के मकानात लेकर पुरानी कोतवाली आयुर्वेदिक अस्पताल पर समाप्त। |
| 21. | 21 | जवाहर मेडिकल स्टोर से शुरू होकर धनकक्षमी मार्केट में वालचन्दजी सिंधी के दुकान व जमाल शेख का मकान को लेकर पन्नालाल नागदा की दुकान व मेवाफरोश की गली की समस्त आबादी शामिल कर भानुभाई नेशनल स्टोर होकर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (वर्तमान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) को लेकर दलीचन्दजी नागदा के मकान को लेकर बायी ओर के समस्त मकानों को शामिल करते हुए बसंतलाल जैन के मकान को लेकर हॉस्पिटल जाने वाले मुख्य रास्ते-रास्ते बायी ओर के मकानों को लेकर हीरालाल नागदा (पुरानी कांग्रेस ऑफिस) एवं कोटडिया के मकान को लेकर रामद्वारा मंदिर तक बायी ओर के समस्त मकानों को शामिल करते हुए जवाहर मेडिकल स्टोर पर समाप्त। |
| 22. | 22 | नगरपरिषद् कार्यालय से शुरू होकर होस्पीटल तरफ जाने वाले रोड के बायी ओर दाडमचन्द भावसार के मकान को लेते हुए श्रीमालों का मकान को लेते हुए समस्त बायी ओर के मकानों को लेते हुए बायी ओर इंजिनियर की गली में मुड़कर मीरा चन्द जैन लक्ष्मीलाल काका के आस पास के सभी मकानों को लेकर पी.डब्ल्यू.डी. कार्यालय के सामने दायी ओर मुड़कर रमेश वर्मा, बसन्तलाल कम्पाउन्डर का मकान शामिल कर वहाँ से गली क्रोस नारायणलाल वायर मेन के मकान को लेकर भरत मोची व नरेश खाद्य निरीक्षक के मकान को लेकर वहाँ से रास्ता क्रोस कर नरेन्द्र श्रीमाल के मकान को लेकर पहाड़ी पर मरीयम मा के मकान एवं पास वाले मकानों को लेते हुए बांसडवाडा, वाटरवर्क्स कार्यालय एवं क्वाटर्स को लेते हुए नीचे सुरजपोल गेट पर उत्तरकर बायी ओर मुड़कर आटा चक्की पूर्व बैंक ऑफ बडोदा मुरलीधरजी के मंदिर एवं बायी ओर के समस्त मकानों को लेते हुए नगरपरिषद् कार्यालय पर समाप्त। |

| | | |
|-----|----|--|
| 23. | 23 | फरासवाडा मेन रोड पर अजीम खां ठाकुर के मकान से बुक ब्रांड टी सेन्टर से प्रारम्भ धनलक्ष्मी मार्केट में बायी ओर के सभी मकान को लेकर तासैफ गारमेन्ट की दुकान को लेते हुए नानुभाई की होटल को लेते हुए महारावल हाई सेकेप्डरी स्कूल को लेकर बायी ओर के समस्त मकानों को लेते हुए थोमस एण्ड सम्पनी को लेते हुए राजाजी की छतरी के बायी ओर के सभी मकानों को लेकर बायी ओर रतनपुर रोड पर मुडकर बोहरा मुसाफिरखाना गोविन्द आमलिया जी का मकान भवर दादा का मकान लेते हुए नवाडेरा से चांद पोल जाने वाले रोड पर मुडकर बायी ओर के मकानों को लेते हुए बायी ओर मुडकर बोहरा कब्रिस्तान को छोडकर शहर पनाह (कोट) होते हुए भेरवा को शामिल करते हुए फरासवाडा शब्बीर बोहरा के मकान को भोईवाडा जाने वाले रास्ते के बाई ओर के समस्त मकानों को लेकर सुलेमान के मकान को लेते हुए बानुभाई की ओर सभी मकानों को लेते हुए अजीमखां ठाकुर के मकान पर समाप्त। |
| 24. | 24 | श्री हनुमान मंदिर से शुरू कर उदय विलास भवन को लेते हुए रिंग रोड से होते हुए जैन फास्ट फुड की दुकान को शामिल करते हुए बायी तरफ मनोज पिता शिवलाल तम्बोली के मकान को शामिल करते हुए वहाँ के समस्त मकानों को शामिल करते हुए, रिंग रोड से चलते-चलते एकदम बायी तरफ मुडकर दाहिनी तरफ नुर सुल्तान मेवाफरोश के मकान को छोडते हुए, राजकीय प्राथमिक विद्यालय नं. 8 (खण्डहर) को लेते हुए, मोईज अली बोहरा के मकान को लेते हुए सीधे चलकर गिरीश कुमार पिता भगवतीलाल कंसारा का मकान लेते हुए दाहिनी तरफ श्री गणपतिजी मंदिर को छोडकर बायी तरफ से चलते-चलते सूर्यनारायण चौबीसा के मकान को लेते हुए आगे चलकर शब्बीर हुसैन पिता हसन अली खाण्डवाला के मकान को शामिल करते रोड क्रोस कर दाहिनी तरफ अजय दिक्षित के मकान को छोडते हुए बायी तरफ कुतुबुद्वीन बोहरा के मकान को शामिल करते हुए महेन्द्र चौबीसा के मकान नं. सी-60 को लेते हुए सीधे चल कर बायी तरफ के समस्त मकान को शामिल करते हुए कचरू भाई जीप वाले को मकान व दुकान को शामिल करते हुए व मंजुला टेलर्स पूर्व पार्श्व के मकान को लेते हुए आगे चलकर मुख्य मार्ग के बायी तरफ की समस्त दुकानों को शामिल करते हुए राजस्थान मेडीकल को शामिल कर नैमिनाथ जैन मंदिर को लेते हुए नाना भाई पार्क को लेते हुए धोबी पाल होते हुए सरैया पेट्रोल पम्प को लेते हुए बायी तरफ मुडकर आगे चलकर गैपसागर की पाल को लेते हुए हनुमानजी मंदिर पर समाप्त। |
| 25. | 25 | शास्त्री कोलोनी कोलेज रोड के दाहिनी तरफ रतलामी नमकीन भण्डार से शुरू हो कर दाहिनी तरफ की समस्त दुकानों को लेते हुए आगे चल कर फुड प्लाजा मिष्ठान भण्डार को लेते हुए आई.सी.आई.सी.आई. बैक को शामिल करते हुए आगे चलकर राज मेडीकल को लेते हुए जोधपुर मिष्ठान भण्डार की दुकान को लेते हुए, मन मंदिर एम्पोरियम को शामिल करते हुए दाहिनी तरफ मुडकर बायी तरफ की अजब-गजब की दुकान को छोडते हुए सीधे चल कर बायी तरफ मुडकर |

| | | |
|-----|----|---|
| | | दाहिनी तरफ शार्दुल कुमार चौबीसा के मकान को शामिल करते हुए बायी तरफ मुड़कर सीधे चलकर दाहिनी तरफ की शाकुन्तलम वाटिका को छोड़ते हुए, आगे रिंग रोड से आगे चलते हुए दाहिनी तरफ अयुब भाई मुसलमान की वाटिका को शामिल करते हुए सुरेया बेगम का मकान को लेते हुए आगे चल कर नुर सुल्तान मेवाफरोश के मकान को लेते हुए दाहिनी तरफ लियाकत भाई मेवाफरोश के मकान को शामिल करते हुए दाहिनी तरफ अजयसिंह चौहान के मकान को शामिल करते हुए वाणिज्यिक कर विभाग को शामिल कर सीधे चलकर हितेश चौबीसा टांक के मकान को शामिल कर रोड क्रोस कर दाहिनी तरफ गणपतिजी मंदिर को लेते हुए सीधे आगे चल कर भूरालाल पंचाल के मकान को शामिल कर अजय दिक्षित के मकान को शामिल करते दाहिनी तरफ मुड़कर आगे चल कर श्री हिरालालजी गाँधी पूर्व ई.ओ. के मकान को शामिल कर अरविन्द पिता जमनालाल सन्मति हाउस लेते हुए रतलामी नमकीन हाउस पर समाप्त। |
| 26. | 26 | नयी आबादी में श्री कुरीचंदजी श्रीमाल एवं उनके पुत्रों द्वारा निर्मित मकानों से शुरू होकर वापस शहर में मुख्य सड़क में जाने वाले दायी ओर जिलाधीश कार्यालय पी.डब्ल्यू.डी. क्वार्टर व गोदाम को लेकर कोटडीया पेट्रोल पम्प शामिल कर तथा फतेहपुरा की समस्त आबादी शामिल करते हुए राजमाता की कोठी के समस्त भवन लेते हुए लक्ष्मण ग्राउण्ड व विनायक पेट्रोल पम्प को शामिल कर काली बाई स्टेच्यु को लेकर रतनपुर जाने वाले रास्ते के दाहिनी ओर के रास्ते-रास्ते प्यारेमियां मिस्त्री का गेरेज व मित्र निवास को लेते हुए सिधे दायी ओर के रास्ते-रास्ते समस्त आबादी को लेते हुए रमेश भाई मरता भाई कटारा के मकान को लेते हुए दायी ओर की आबादी को लेते हुए साबेला तालाब की किनारे बने सरकारी क्वार्टर एवं वहाँ से न्यू कोलोनी जाने वाले रास्ते पर बायी ओर बने सरकारी क्वार्टर को लेते हुए पन्नालालजी की आरामशीन व बायी ओर की समस्त आबादी को लेते हुए कुरीचन्द जी श्रीमाल के मकान पर समाप्त। |
| 27. | 27 | पूरानी सब्जी मंडी से शुरू होकर बस स्टेप्ड जाने वाले रास्ते-रास्ते बायी ओर के समस्त मकान व पूराना बस स्टेप्ड शामिल करते हुए, गायत्री लोज, रामनिवास लोज अब्दुल करीम की दुकान, नगरपरिषद् की निर्मित दुकान एवं विजयगंज की समस्त आबादी शामिल करते हुए बायी ओर मुड़कर न्यू दुर्गा इन्जिनियर की दुकान शामिल करते बायी ओर के समस्त सुथारों के मकान लेते हुए बायी ओर रास्ते- रास्ते चलते हुए बायी ओर की दुकान लेते हुए, दाहिनी ओर शनि मंदिर को छोड़ते हुए बायी ओर मुड़कर पाश्व नगर में जा कर बायी तरफ गजेन्द्र पिता श्री नारायणलाल कलाल के मकान एवं दुकानों को शामिल करते हुए दाहिनी तरु पाश्व नगर के मकानों को छोड़ते हुए बायी तरफ नाथुलाल खराड़ी के केलुपोश मकान को लेते हुए, विजयगंज का नाला पार कर बायी ओर के मनोजजी एलआईसी वाले के मकान को लेते हुए राजपुत छात्रावास को शामिल करते हुए बायी तरफ की समस्त दुकानों को शामिल करते हुए पूरानी सब्जी मंडी पर |

| | | समाप्त। |
|-----|----|---|
| 28. | 28 | तहसील चौराहे से बायी तरफ की समस्त दुकानों को लेते सैफी कोम्प्लेक्स को शामिल करते हुए बायी तरफ मुडकर अलंकार होटल को लेते हुए दाहिनी तरफ पूरानी सब्जी मंडी को छोड़ते हुए बायी तरफ ए. के. सेनेट्री हाउस को शामिल करते हुए आगे रास्ते-रास्ते चलकर दाहिनी ओर मुडकर राजपुत छात्रावास को छोड़ते हुए बायी तरफ के समस्त मकानों को लेते हुए आगे चल कर बायी तरफ मुडकर नाला क्रोस कर श्री रमेश पिता धुलजी जोशी इन्डोडा वालों का मकान लेते हुए बायी तरफ पाश्व नगर को शामिल कर आगे चलकर बायी तरफ मुडकर एम. एस कोम्प्लेक्स को शामिल कर दाहिनी तरफ शनि मंदिर को छोड़कर आगे रास्ते-रास्ते आगे चलकर आठर्श नगर के समस्त मकानों को लेते हुए चम्पालाल भावसार के खेतों की बाउन्ट्री शामिल करते हुए, श्री के.के. गुप्ता के मकान को लेते हुए अशोक कुमार पिता भागचन्द्र को मकान को लेते हुए वहाँ से गली में मुडकर बायी तरफ श्री हरिशचन्द्र रोत लेकर्चर के मकान व दौलतसिंह राठौड़ के मकान को लेकर बायी और की समस्त आबादी शामिल कर कलेक्ट्री जाने वाले रास्ते-रास्ते बायी तरफ के समस्त मकान को शामिल करते हुए मुख्य रोड उदयपुर जाने वाले तक वहा से शहर में जाने वाले रास्ते-रास्ते जलदाय विभाग के अधिशासी अभियन्ता के मकान नई जैल, पंचायत समिति कार्यालय का भवन व समस्त बायी और की समस्त बस्ती, कोलोनियों को शामिल करते हुए वहाँ से डाक बंगला शामिल कर तहसील कार्यालय पर समाप्त। |
| 29. | 29 | क्रय विक्रय सहकारी समिति गोदाम से शुरू होकर पुलिस लाईन जाने वाले बायी और के सभी मकानों को लेकर पुलिस अस्पताल एवं पुलिस लाईन व उनका स्कूल भवन एवं इसके पिछे लाईन के समस्त क्वार्टर्स लेकर पुलिस लाईन के पिछे गेट होकर रा.उ.प्रा.वि. न्यू 6 नई आबादी शामिल करते हुए वहाँ से जिलाधीश कार्यालय जाने वाले रास्ते-रास्ते बायी और के सभी मकान लेते हुए डॉ विनय जैन एवं चन्द्रलाल सरैया के मकान को लेते हुए वहाँ से गली क्रोस कर बायी और फतेहलाल खड़ायता एवं खेचंद शाह के मकान के बायी और गली में मुडकर मुरलीशंकर के मकान को लेकर शांतिलाल जैन के मकान को लेकर बायी और मुडकर शहर मे जाने वाले रास्ते रास्ते मेहता ट्रासपोर्ट एवं कालुराम भोई के दुकान को लेकर भजन सिंधी की दुकान को लेकर वहाँ से गली में मुडकर स्व. वकील शिवलाल पटेल एवं झूँगरपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक के भवन को शामिल कर तथा वहाँ से रास्ता क्रोस कर गोविन्दराम पण्ड्या के मकान को लेकर एपरोच रोड से बस स्टेण्ड जाने वाले रास्ते बायी और पुलिस लाईन की बाउन्ट्री को शामिल करते हुए जीवनलाल कोठारी का मकान एवं दुकान व कुकड़शाला भवन को लेते हुए अशोक मोची का मकान व दुकान को लेकर क्रय विक्रय सहकारी समिति गोदाम पर समाप्त |
| 30. | 30 | पटवार भवन से शुरू कर मुख्य रोड सागवाडा की बायी तरफ की समस्त आबादी |

| | | |
|-----|----|---|
| | | <p>को लेते हुए एस.बी.पी. कालेज को शामिल कर, डाईट भवन को लेकर आगे बायपास रोड क्रोस कर रोडवेज बस स्टेप्प व रोडवेज डिपो को लेते हुए, नेहा पेट्रोल पम्प को शामिल कर रोडवेज डिपो के पास बायी तरफ की दुकान लेकर बायी तरफ मुड़कर पत्रकार कोलोनी को शामिल कर नगरपरिषद् कर्मचारी, स्व. हरिश शाह का मकान व श्री भारतेन्द्र जी पण्ड्या का मकान को लेकर आगे चल कर अब्दुल वहीद के मकान को लेकर सडक के बाई ओर की समस्त आबादी को लेते हुए, संजय पित दोवाचन्द के मकान की तरफ के सारे मकान लेते हुए आगे की तरफ 60 फीट रोड पर रास्ते-रास्ते बायी ओर की समस्त आबादी को लेकर, दाहिनी तरफ श्री डॉ जयेश गाँधी के मकान को छोड़ते हुए, 80 फीट डाईट रोड को क्रोस कर बायी तरफ नई सब्जी मंडी को लेते हुए वीर बाला काली बाई छात्रावास को लेते हुए श्री त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मण छात्रावास को लेते हुए युनिवर्सल हार्डवेयर दुकान को लेते हुए न्यू हास्पीटल रोड के रास्ते-रास्ते चल कर दाहिनी ओर निकुंज प्लाजा को छोड़ते हुए नई बस्ती जाने वाली बायी तरफ की सडक पर वर्तमान टिम्बर्स को लेते हुए बायी ओर की समस्त आबादी को लेते हुए आगे चल कर बायी ओर सुरेश जैन पिता चम्पालालजी के मकानों को लेते चलते-चलते पुनर्मचन्द लबाना के मकान को लेते हुए दाहिनी तरफ ब्रह्याकुमारी विश्वविद्यालय को छोड़ते हुए वीर हनुमान मंदिर के पास वाली गली से बायी तरफ गोल्डन जीम को लेते हुए आगे चल कर रामेश्वर त्रिवेदी प्लाट नं. 39 एवं जयेश जोशी एडवोकेट के मकान को शामिल करते हुए पिछे की तरफ श्यामसुन्दर व लक्ष्मीलाल वकील के मकानों को लेते हुए गोरीशंकर उपाध्याय नं. 6 स्कूल की तरफ जाने वाले मार्ग पर बायी ओर बालूराम मेहता व तुलसीरामजी (पूर्व ओएस नगरपालिका) के मकानों को लेते हुए सूरजमल मेहता के मकानों को शामिल करते हुए बायी ओर दिनेश चौबीसा एडवोकेट के मकान को लेते हुए पुलिस लाईन के पिछे के गेट से होकर पुलिस लाईन की स्कूल व पुलिस लाईन के क्वार्टर को छोड़ते हुए पुलिस लाईन की बाउन्ड्री होकर पुलिस लाईन के रास्ते-रास्ते पानी की टंकी को लेकर बायी ओर पंचायत समिति के क्वार्टर्स आरा मशीन एवं पटवार घर को लेकर पशु चिकित्सालय पर समाप्त।</p> |
| 31. | 31 | <p>जोधपुर मिष्ठान भण्डार मन मंदिर एम्पोरियम से दाहिनी तरफ मुड़कर अजब गजब दुकानों को लेते हुए आगे चलकर शार्दुल कुमार के मकान को छोड़कर बायी तरफ शकुंतलम वाटिका को लेते हुए रिंग रोड के बायी तरफ मुड़कर आगे चलकर समस्त आबादी को लेकर सागवाड़ा रोड के दाहिनी तरफ के वागडिया पाटिदार के छात्रावास को लेकर पीछे की ओर मौजा झंगरपुर की रेवेन्यु बाउन्ड्री की आबादी को लेते हुए ओद्योगिक क्षेत्र की समस्त आबादी को लेते हुए आगे चलकर दाहिनी तरफ श्रीनाथ स्कूल/कोलेज को छोड़ते हुए बायी तरफ बंसल टैट हाउस को लेते हुए श्री गणेशलाल खराड़ी व मौजा झंगरपुर की रेवेन्यु बाउन्ड्री को लेते हुए रामनगर की आबादी को शामिल कर सहकारी दूध डेयरी को शामिल करते हुए</p> |

| | | |
|-----|----|--|
| | | मौजा डूंगरपुर की रेवेन्यु बाउंड्री को शामिल करते हुए दाहिनी तरफ आईटीआई, सहकारी भवन, टेलीफोन एक्सचेंज को छोड़ते हुए सुरेन्द्र पिता शंकरलाल के मकान को छोड़ते हुए रोड क्रोस कर आगे चलकर बायी तरफ टैगोर डूंगरपुर की समस्त आबादी को लेते हुए बायी तरफ मुड़कर पत्रकार कोलोनी की श्रीमति अचला वसीटा के मकान को लेते हुए रफीक पिता करीम घांची का मकान शामिल करते हुए बायी ओर महेन्द्र सिंह सोलंकी (पूर्व नगरपालिका कर्मचारी) का मकान लेते हुए पत्रकार डूंगरपुर के चौक पर मंदीर को लेते हुए बायी तरफ रास्ते-रास्ते चलकर माथुगामडा रोड क्रोस कर बायी तरफ से रोडवेज बस स्टेप्ड जाने वाले मार्ग की समस्त आबादी को लेते हुए (दाहिनी तरफ नेहा पेट्रोल पंप को छोड़ते हुए) मुख्य सागवाडा रोड को क्रोस कर बायी तरफ होटल वैभव को लेते हुए डॉ नागेन्द्र सिंह कोम्प्लेक्स को लेते हुए अजब गजब की दुकान पर समाप्त। |
| 32. | 32 | डॉ जयेश गाँधी (डाईट रोड से न्यू होस्पीटल जाने वाले मार्ग) के मकान से शुरू कर बायी ओर के समस्त आबादी को लेते हुए जलदाय विभाग की टंकी को लेते हुए प्रेमजी पंचाल के मकान को लेते हुए निचे तरफ चलते-चलते बायी तरफ के डॉ संतोष अरबट के मकान को लेते हुए बायी ओर अब्दुल अजीज मंसुरी पिन्जारा के मकान को लेते हुए हाउसिंग बोर्ड कोलोनी जाने वाले रास्ते-रास्ते बायी ओर के मकानों को लेते हुए रोड को क्रोस कर श्री सुरेन्द्र पंचाल के मकान को लेते हुए टेलिफोन एक्सचेंज के पास की समस्त आबादी को लेकर वेयर हाउस, गोदाम को शामिल कर आगे चलकर दाहिनी तरफ मुड़कर रोड क्रोस कर बसन्तलाल भण्डारी के मकान को लेते हुए रास्ते-रास्ते चलकर बायी तरफ मुड़कर माथुगामडा रोड से आगे चलते हुए बायी तरफ के समस्त मकानों को लेते हुए दुध डेयरी के समस्त क्वार्टर व कृषि उपज मंडी व आईटीआई को शामिल करते हुए वागड माता कोलोनी की समस्त आबादी को लेते हुए भरत पहाड (ए.ई न)के मकान को शामिल कर बायी तरफ कन्हैयालाल कोठारी के मकान को लेते हुए प्रेमचंद कलाल के मकान को शामिल करते हुए बायी तरफ आगे चलकर कन्हैयालाल डेप्डोर के मकान को शामिल कर दाहिनी तरफ मुड़कर बायी तरफ धनपाल जी गांधी के मकान को लेते हुए बायी तरफ मुड़कर कमलेश भाई पंछी के मकान को लेकर रामेश्वर जी चौबीसा के मकान को शामिल कर दाहिनी तरफ मुड़कर रोड क्रोस कर बायी तरफ माताजी के मंदिर को लेते हुए बायी तरफ मुड़कर आगे चलकर महेन्द्र सिंह खालसा के मकान को लेकर आगे चलकर महिपाल सिंह चौहान के मकान का नं. 4/77 को शामिल कर बायी तरफ रास्ते-रास्ते चलकर राजू भाई की दुकान को लेकर आगे चलकर बायी ओर की समस्त शिवाजी नगर की आबादी को लेते हुए रायसिंह चौहान का मकान नं. 4/195 को लेते हुए आगे चलकर सोहनलाल सेवक का कोर्नर मकान को लेते हुए दाहिनी तरफ निकुंज प्लाजा की दुकान (बिल्डींग) को छोड़ते हुए बायी तरफ मुड़कर बस स्टेप्ड जाने वाले मुख्य सड़क से रास्ते-रास्ते चलकर बायी तरफ खाली पड़े भूखण्ड (एम.एल.ए. क्वार्टर हाउसिंग बोर्ड के) व शहिद पार्क के दरवाजे के सामने की |

| | | |
|-----|----|--|
| | | समस्त आबादी को लेते हुए आगे चलकर भगवती लाल पिता गोवर्धनलाल जैन थाणा वाले की दुकान शामिल कर आगे चलकर न्यु महावीर (लक्ष्मीलाल जैन) इलेक्ट्रीकल्स की दुकान को लेते भीखालाल भोई (रिटार्ड कर्मचारी नगरपालिका) की दुकानों एवं मकानों की आबादी को शामिल करते हुए डॉ श्री जयेश गांधी के मकान पर समाप्त। |
| 33. | 33 | निकुंज प्लाजा (नई सब्जी मंडी जाने वाले मार्ग) से शुरू कर बायी तरफ आगे चलकर श्री दिलीपसिंह सिसोदिया का मकान नं. 3/142 को शामिल करते हुए रास्ते-रास्ते चल कर बायी तरफ रमणलाल पटेल कृषि अधिकारी का मकान को शामिल करते हुए बायी ओर के रामदेव चौक को लेते हुए बायी तरफ कान्तिलाल जी कंसारा स्वास्थ्यक केबल के मकान को लेकर आगे चल कर रामकृष्ण डामोर के मकान नं. 3/83 के मकान को लेते हुए आगे चल कर श्री भूपेन्द्रसिंह चौहान का मकान नं. 3/22 को लेते हुए रोड क्रोस कर माताजी का चौक से बायी ओर शिवाजी पार्क व आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय को लेते हुए बायी तरफ मुडकर श्यामसुन्दर लोहाना 2/102 मकान को लेते हुए दाहिनी तरफ मुडकर दाहिनी तरफ कमलेश जैन के मकान को छोड़ते हुए बायी तरफ मुडकर अम्बालालजी चौबीसा 2/94 को लेते हुए दाहिनी तरफ श्री कन्हैयालाल कोठारी का मकान छोड़ते हुए आई.टी.आई. के पिछे की दिवार के सहारे-सहारे सटे हुए मकान श्री राजेन्द्रप्रसाद त्रिवेदी का मकान एवं मकान नं. 2/72-एच के आस-पास के समस्त मकानों को लेते हुए व आई.टी.आई. की नवनिर्मित भवन को छोड़ते हुए आगे की ओर जितेन्द्र पिता शान्तिलालजी जैन के मकान को लेते हुए चलते-चलते क्षेमशंकर जी का मकान नं. 7/193 को लेते हुए दाहिनी और आयुर्वेद विभाग का आफिस व अस्पताल के आस-पास की बायी तरफ की समस्त आबादी को लेते हुए मोर्डन स्कूल को लेकर आगे की ओर कोर्नर पर स्थित किशोरसिंह का मकान नं. 7/बी-10 व गणपतलाल यादव का मकान को लेते हुए मोर्डन स्कूल से सदर थाणा जाने वाली मुख्य सड़क के बायी तरफ की समस्त आबादी को लेते हुए आगे चलकर के.ए.ल. डामोर के मकान को लेते हुए श्री नारायणलाल रोत का मकान नं. 7/11 का मकान को शामिल करते हुए आगे चल कर बायी तरफ की समस्त दुकानों को लेते हुए आगे चल कर राजस्थान आवासन मण्डल के कार्यालय को छोड़ते हुए बायी तरफ शिवाजी काम्प्लेक्स को लेते हुए बायी तरफ की समस्त दुकानों को लेते हुए सदर थाणा चौराहे से नया बस स्टेंड की तरफ जाने वाली सड़क के बायी तरफ आगे चल कर गजेन्द्रसिंह चौहान का मकान को लेते हुए आगे चलकर बायी तरफ रास्ते-रास्ते चलकर प्रेमपुरी गोस्वामी (रिटार्ड पटवारी) की दुकान व मकानों की समस्त आबादी को लेते हुए बायी ओर की समस्त दुकानों को लेते हुए निकुंज प्लाजा पर समाप्त। |
| 34. | 34 | सदर थाणा चौराहा से शुरू कर सदर थाणा के आस पास के समस्त आबादी व क्वाटरों को लेते हुए पंचायत प्रशिक्षण भवन उसके सभी क्वाटरों को लेते हुए पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र के सामने समस्त मकानों को लेते हुए नवनिर्मित डॉ. |

| | | |
|-----|----|--|
| | | दलजीत यादव का भवन लेते हुए दाहिनी ओर की समस्त शिव कोलोनी की आबादी को लेते हुए बायी ओर स्पोर्ट्स कोम्प्लेक्स की दीवार को छोड़ते हुए स्टेडियम की दिवार के पिछे के मकानों को लेते हुए सूचना केन्द्र को शामिल करते हुए आगे चलते- चलते कान्तिलाल खराड़ी मकान नं. 42 (नगरपरिषद् की आवासीय योजना) को लेते हुए मौजा डॉगरपुर के राजस्व परिधि को लेते हुए व मौजा भाटपुर की राजस्व परिधि को छोड़ते हुए वनवासी कल्याण परिषद् को शामिल करते हुए बापुलाल जी रावत मकान नं. 5/84, दाहिनी ओर को शान्तिसागर रोत मकान नं. 5/100 के आस पास की दाहिनी तरफ की आबादी को लेते हुए महेश कुमार पिता नारायणलाल सुथार मकान नं. 5/312 से आगे चलते-चलते कुरीचंदजी मकान नं. 5/314 कोर्नर को लेते हुए व मौजा भाटपुर की परिधि को छोड़ते हुए दाहिनी ओर की समस्त आबादी को लेते हुए प्रेमचंद कलाल मकान नं. 5/289 को लेते हुए आगे रास्ते चलते-चलते विक्रमकुमार मकान नं. 5/195 को लेते हुए आगे की ओर बालुप्रसाद सोनी मकान नं. 197 व दिलीप परमार मकान नं. 5/168 को लेते हुए लक्ष्मणदास कोटेड मकान नं. 5/169 को लेते हुए दाहिनी तरफ मुड़कर सदर थाणा रोड रास्ते-रास्ते खेमजी पाटीदार मकान नं. 355 मेवाड डेयरी को लेते हुए बाबुलाल यादव मकान नं. 5/52 कनबा वाले मकान को लेते हुए उसे रास्ते-रास्ते दाहिनी तरफ विद्यालय नं. 14, अम्बामाता मंदिर, राजस्थान आवासन मण्डल कार्यालय, नवनिर्मित अटलबिहारी भवन, आबकारी कार्यालय को लेते हुए रिद्धि सिंधी डेन्टल होस्पीटल को लेते हुए सदर थाणा पर समाप्त। |
| 35. | 35 | मुख्य डाकघर से शुरू कर (माताजी चौक) आगे चलकर बायी ओर डॉ शान्तिलाल जैन का मकान को लेते हुए रास्ते-रास्ते आगे चलकर चन्द्रेश पिता नाथुलाल जैन का मकान 487 को लेते हुए बायी ओर की समस्त आबादी को शामिल करते हुए आगे चल कर बायी ओर मुड़कर रास्ते-रास्ते आगे चलकर राजकीय गौरीशंकर उपाध्याय विद्यालय की आरे जाने वाले मार्ग से बायी ओर श्री ईश्वरलाल वसीटा के मकान को लेते हुए आगे चलकर रोड क्रोस कर बायी ओर शहीद हेमू कलाणी पार्क को शामिल कर श्री चन्दुलाल दोशी बैक वाले के मकान को लेते हुए बायी ओर विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय न्यू कोलोनी को लेते हुए बायी ओर मुड़कर बायी तरफ कोर्नर में श्री महावीर पिता नानालाल रोडजी का मकान शामिल करते हुए निचे की ओर कमलेश जोशी का मकान लेते हुए रोड क्रोस कर अनिल पारीक व स्वाती पारिक एडवोकेट के मकान को लेते हुए निचे की ओर बायी तरफ की समस्त आबादी को लेते हुए और चल कर जसवंतसिंह चौहान को मकान लेते हुए बायी ओर आगे चल कर लालुराम मेघवाल के मकान को लेते हुए बायी ओर मुड़कर बायी तरफ विक्रमसिंह पिता माधवसिंह चौहान के मकान को लेते हुए रोड क्रोस कर श्री दिनेशजी पंचाल पटवारी का मकान शामिल कर राजेश भोई (अध्यापक) का मकान लेते हुए आगे चलकर बायी तरफ लक्ष्मीलाल पिता नाथुलाल जी दोशी वसी वाले का मकान को लेते हुए हेमेन्द्रकुमार चौबीसा (निजी |

| | | |
|-----|----|--|
| | | सहायक जिला कलक्टर) के मकान को लेते हुए आगे चलकर बायी तरफ मुड़कर विनोदचन्द्र चौबीसा का मकान शामिल करते हुए जयहिन्द नगर की गली नं. 4,3,2,1 को लेते हुए बायी तरफ की समस्त आबादी को लेते हुए, सतीश पिता श्री वालचंद (जीयाजी सुटिंग) का मकान लेते हुए कमलेश पालीवाल (पम्प मिस्ट्री) का मकान लेकर दाहिनी तरफ मुड़कर दाहिनी तरफ श्री अनिल पटेल ठेकेदार का मकान को छोड़ते हुए बायी तरफ सुभाष पार्क व आस-पास की आबादी को शामिल करते हुए बायी तरफ श्री मोहनलाल पिता कानजी कलाल (ए.ई.न.) का मकान शामिल कर आगे चल कर बायी तरफ संजय मेहता पिता कान्तिलालजी का मकान शामिल कर बायी तरफ मुड़कर कालुराम भोई ठेकेदार (राघवेन्द्र) का मकान शामिल कर मुख्य डाकघर माताजी चौक पर समाप्त। |
| 36. | 36 | श्री कान्तिलाल मेहता का न्यू कालानी का खण्डहर मकान से शुरू कर आगे चलते हुए चिरंदीप कंसारा का मकान शामिल कर आगे चलकर जे.के. जैन नेशनल इन्शोरेंस के मकान को शामिल कर प्रेमकुमार पिता श्री मोकमचंद जैन व प्रवीणसिंह अहाडा का मकान शामिल कर रास्ते-रास्ते बायी तरफ विरेन्द्रजी दीक्षित का मकान को लेते हुए रोड क्रोस कर दाहिनी तरफ मुड़कर गोल्डन पिता रमेश कलाल की जीम को छोड़ते हुए बायी तरफ सामुदायिक भवन को लेकर आगे वीर हनुमान मंदिर व गणपति मंदिर को शामिल कर बायी तरफ प्रजापिता ब्रह्यकुमारी विश्वविद्यालय को शामिल कर बायी तरफ आगे चलकार भालचंद रावल का मकान लेते हुए आगे चल कर श्री अशोक कुमार चौबीसा (पूर्व कार्यालय सहायक तहसील डॉगरपुर) के कोर्नर मकान को लेते हुए बायी तरफ मुड़कर आगे चलकर अर्जुनलाल जैन का मकान लेते हुए आगे चलकर जी. के. पंचाल का मकान लेकर आगे जाकर बायी तरफ मुड़कर ज्ञानसरोवर वाटिका के पिछे की तरफ की दिवार को लेकर डायालाल चौबीसा पटवारी का मकान लेकर नगीनलाल पिता चुन्नीलाल जैन का मकान शामिल कर लाटस गार्डन को छोड़कर दाहिनी तरफ मुड़कर बायी ओर तुषार वाटिका को शामिल करते हुए दिवार के सहारे सहारे बायी तरफ महेन्द्रसिंह सिसोदिया के मकान को लेते हुए तेजबहादुरसिंह पिता नाहरसिंह सिसोदिया का मकान शामिल कर बायी ओर मुड़कर श्री शैलेष गोस्वामी (गिरदावर) का मकान शामिल कर रामलालजी गरासिया की भूमि को लेते हुए चुन्नीलाल खराडी का मकान व धनराज कटारा विकास अधिकारी का मकान लेते हुए अशोक कालरा के मकान को शामिल कर रोड क्रोस कर प्रकाशचंद्र जैन का मकान शामिल कर श्री कान्तिलाल मेहता के खण्डहर मकान पर समाप्त। |
| 37. | 37 | प्रताप नगर चौराहे से शुरू कर बायी तरफ सुभाषचन्द्र रोत मकान नं. 356 को लेते हुए बायी तरफ की समस्त आबादी को लेते हुए अजय शर्मा ठेकेदार के मकान को शामिल करते हुए प्रगति नगर की दायी तरफ जैन मंदिर को छोड़ते हुए आगे चलते-चलते बायी तरफ रजनीकांत पिता हीरालाल मेहता का मकान नं. 457 को लेते हुए बायी तरफ दीपक शाह पिता कन्हैयालाल शाह के मकान को |

| | | |
|-----|----|--|
| | | <p>शामिल करते हुए बायी तरफ के समस्त आबादी को लेते हुए गौतमलाल खराड़ी का मकान लेते हुए दाहिनी तरफ मुड़कर बायी तरफ चलते-चलते, बायी तरफ मुड़कर कोर्नर मकान भगवतीलाल पिता गोवर्धनलाल जैन थाणा वाले का लेते हुए भाग्योदय हाउस को लेते हुए रास्ते-रास्ते चलते हुए हरि ओम स्ट्रीट की समस्त आबादी को लेते हुए प्रदिप उपाध्याय के मकान को शामिल कर आस्था स्ट्रीट को लेते हुए उसकी आबादी को शामिल करते हुए मदनलाल व ओमप्रकाश मित्तल का मकान लेते हुए बायी तरफ मुड़कर अनिल पटेल का मकान लेते हुए सुभाष पार्क को छोड़ते हुए बायी तरफ मुड़कर आगे चलकर बाबूलाल सुथार का मकान शामिल कर आगे निचे उतरकर निशिथ शाह का मकान लेते हुए दाहिनी तरफ मुड़कर जय हिन्द नगर की गली नं. 5 की बायी तरफ की समस्त आबादी को लेते हुए ललित लोचन (प्राध्यापक) का मकान शामिल करते हुए रास्ते-रास्ते आगे चलकर शांतिलाल जैन (तहसीलदार) का मकान शामिल कर बायी तरफ मुड़कर एकदम दाहिनी तरफ आगे चलकर अश्विन कुमार पिता नाथुलाल जैन का मकान लेते हुए आगे चलकर रोड क्रोस कर सीधे चलते हुए चंद्रकान्त जैन का मकान लेते हुए आगे आगे चलकर सुभाष श्रीमाली व महेन्द्र सिंह चौहान (ए.एस.आई.) का मकान लेते हुए आगे तुलसीलाल गोड का मकान लेते हुए दाहिनी तरफ तुषार वाटिका को छोड़कर बायी तरफ लोटस गार्डन वाटिका को लेते हुए आगे चलकर शशिकान्त पण्डया व जी.एन. माथुर (जी.1 अशोक नगर) का मकान लेते हुए PHEDPHED का कुंआ लेकर बायी तरफ मुड़कर एस.पी. गार्डन वाटिका को लेते हुए आगे चलकर सुशील कटारा पूर्व राज्य मंत्री का मकान लेते हुए सीधे चलकर प्रताप सिंह पिता माधव सिंह भाटी का मकान लेते हुए बायी तरफ की समस्त आबादी को लेते हुए मणीलाल पिता हेमचन्द्र कलाल का मकान शामिल कर दाहिनी तरफ मुड़कर सामने की तरफ शांतिलाल जैन (लक्ष्मीनगर) का मकान शामिल कर बायी तरफ की समस्त आबादी को लेते हुए रत्ना भगोरा का कच्चा केलुपोश मकान लेते हुए आगे चलकर बायी तरफ मुड़कर होटल हवेली को छोड़ते हुए बायी ओड बस्ती (बंजारा बस्ती) को लेते हुए आगे चलकर पूरणमल दावडा के मकान को लेते हुए आगे चलकर नरेन्द्र सिंह चौहान का मकान शामिल करते हुए बायी तरफ की समस्त आबादी को शामिल कर वाल्मीकि सामुदायिक भवन (नगरपरिषद्) शामिल करते हुए आगे चलकर बायी तरफ मुड़कर प्रताप चौराहे की ओर फ्लाइंग मशीन (शांतिलाल कलाल फ्लोज वाले) की बिल्डिंग को लेते हुए छंगुर गुप्ता (मातेश्वरी बोरवेल) के मकान को लेते हुए राजस्थान डेन्टल होस्पीटल को शामिल करते आगे चलकर सुभाषचन्द्र रोत के मकान पर समाप्त।</p> |
| 38. | 38 | वर्धमान मेडिकल के सामने आधुनिक शोचालय (नगरपरिषद् डूंगरपुर) से शुरू कर बायी तरफ धर्मशाला को शामिल कर बायी तरफ होटल हवेली रोड शामिल कर आगे रोड क्रोस कर कानसिंग भगोरा, रमेशसिंह भगोरा का मकान शामिल कर आगे बायी तरफ मुड़कर कोर्नर मकान श्री राजेन्द्र जी का शामिल कर दाहिनी तरफ मणीलाल पिता हेमचन्द्र कलाल के मकान को छोड़ते हुए आगे चलकर |

| | | |
|-----|----|--|
| | | दिपक पिता प्रेमप्रकाश गहलोत का मकान शामिल कर मगनलाल डोडा का मकान लेते हुए दाहिनी तरफ एस.पी. गार्डन को छोड़ते हुए रोड क्रोस कर बायी ओर कल्याण जी जैन (अशोक नगर), रमेशचन्द्र कलाल के मकान को शामिल कर ठाकुर राजेन्द्र सिंह चैहान माण्डव हाउस को लेते हुए बायी तरफ की समस्त आबादी को लेते हुए आगे चलकर छगनलालजी कलाल व अमृतलाल परमार का मकान शामिल कर बायी तरफ मुड़कर हसमुख पण्डया का मकान शामिल कर रमणलाल पिता कचर्लाल जैन का मकान शामिल कर पूनमचन्द्र लबाना का मकान शामिल कर करुणा जोशी की बिल्डिंग (लक्ष्यदीप) लेते हुए ज्योति सेल्स को शामिल कर भूपेन्द्र भट्ट (भट्ट हाउस) को लेते हुए बायी तरफ बालाजी नगर की समस्त आबादी को लेते हुए सदर थाना रोड क्रोस कर बायी तरफ की समस्त दुकानों को शामिल कर दाहिनी तरफ जाने वाले रास्ते को छोड़ते हुए बायी तरफ ग्रीन पार्क कालोनी व समस्त आबादी को लेते हुए मोतीलाल परमार का केलुपोश मकान को शामिल कर आगे चलकर स्पोर्ट्स कोम्पलेक्स की पीछे की दीवार के सहारे-सहारे चलकर स्पोर्ट्स कोम्पलेक्स को शामिल करते हुए आगे चलकर स्टेडियम के मेन गेट होते हुए नगरपरिषद् की सीमा को लेते हुए सुभाष नगर के पिछे आवंटित पत्रकारों के भूखण्डों को लेते हुए आईडिएसएमटी योजना ब्लाक बी की समस्त आबादी को शामिल करते हुए जीवन ज्योति होस्पीटल को शामिल करते हुए एम.बी हाउस (श्री आशीष एन्ड ब्रदर्स कलाल) को शामिल करते हुए बायी ओर न्यू होस्पीटल को शामिल कर होस्पीटल चौराहे व जवाहर मेडिकल को शामिल कर वर्धमान मेडिकल के सामने आधुनिक शौचालय पर समाप्त। |
| 39. | 39 | प्रताप सर्कल से शुरू होकर वर्धमान किराणा स्टोर को लेकर बायी तरफ न्यू होस्पीटल की तरफ जाने वाले मार्ग पर चपलोत लेबोरट्री को लेकर वर्धमान मेडीकल को शामिल कर होस्पीटल चौराहा के बायी तरफ डॉ. क्वार्टर को लेते हुए 132 के.वी. सहायक अभियन्ता के आफीस को लेते हुए दाहिनी तरफ न्यू होस्पीटल को छोड़ते हुए आगे राजमाता देवेन्द्र संग्रहालय को लेते हुए आगे चल कर नगरपरिषद् का नवनिर्मित रैन बसेरा को लेते हुए बायी तरफ तपस मुख बधिर विद्यालय को लेते हुए कार्यालय सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (बाल संरक्षण गृह) एवं समस्त IDSMT RESIDENTAL SCHEME BLOCK-A (इन्द्रा नगर) की समस्त राजस्व आबादी को लेते हुए 132 के. वी. के ऑफीस के पिछे की दीवार के सहारे-सहारे वेयर हाउस के पिछे की दीवार के सहारे-सहारे बायी तरफ मुड़कर ब्रजलाल पिता श्री मुलचन्द्र जी कलाल के नवनिर्मित (अविनाश मोटर्स) मकानों की समस्त आबादी को लेते हुए आगे चलकर डॉ. सुरेश मोदी का मकान को लेकर आगे चल कर मनोज मेहता का मकान शामिल कर उपेन्द्र पण्डया (जिला सांखियकी अधिकारी) का मकान को लेते हुए प्रताप सर्कल पर समाप्त। |
| 40. | 40 | श्री रमेशजी शाह (वन विभाग कार्यालय के सामने उदयपुर रोड) के मकान से शुरू कर आगे चल कर बायी ओर मुड़कर अशोक जी सरैया के मकान को लेकर |

| | |
|--|---|
| | <p>दाहिनी ओर मुडकर मुख्य डाकघर को छोडकर आगे चलकर बाबूलाल पिता आनंदजी जैन (एक्स.ई.एन आर.एस.ई.बी.) के मकान को लेकर आगे चलकर बायी तरफ के समस्त आबादी को लेकर आगे श्री भगवानदास पिता धुलजी का मकान लेते हुए बायी तरफ संजय गाँधी का मकान को लेकर रास्ता क्रोस कर आगे चल कर मो0 तारीक खान का मकान को लेकर बायी तरफ चलकर के क्वाटरों को लेकर दाहिनी तरफ भाग्योदय हाउस को छोडकर निचे चल कर दाहिनी तरफ मुडकर बायी तरफ राजेन्द्र कोठारी के मकान को लेते हुए बसन्ती बागड़िया का मकान को लेते हुए आगे चल कर धनपाल जैन का मकान को शामिल कर बायी तरफ आगे चल कर कालूराम जी परमार (एक्स.ई.एन सिंचाई विभाग) का मकान को लेकर बायी तरफ मगनलालजी जैन का मकान को लेते हुए बायी तरफ जैन मंदिर को लेते हुए बायी तरफ की समस्त आबादी को लेते हुए रास्ते-रास्ते चलकर प्रताप सर्कल को क्रोस कर राजपुर आवासीय योजना का 100 फीट रोड पर बायी तरफ छगनलाल जैन के मकान को लेते हुए श्री भालचन्द पण्ड्या का मकान लेते हुए आगे चल कर श्री महेशजी जैन एडवोकेट के मकान को लेकर राजेश पंचाल देवल वाले का मकान को लेकर आगे चलकर नवनीतलाल द्विवेदी व बालाजी वालों का मकान लेकर बायी ओर मुडकर रेलवे की बाउन्ट्रीवाल के अन्दर की प्रताप नगर की समस्त आबादी को शामिल कर उदयपुर मैन रोड के बायी तरफ श्री वखेचन्द जी जैन (पूर्व पार्षद) की दुकानों को शामिल कर हिरो शौरम (दोशी मोटर्स) को लेकर, एल आई सी बिल्डीग को लेकर बायी ओर केतन शाह आदि के मकान शामिल कर आगे चल कर देवेन्द्र पंचाल के मकान को शामिल कर गाँधी आश्रम पर बायी ओर जवाहर मेडीकोज की दुकान व पंचायत समिति के क्वाटरों को शामिल कर विनोद पिता पन्नालाल शाह व चिराग शाह का मकान को लेकर श्री रमेश शाह के मकान पर समाप्त।</p> |
|--|---|

आयुक्त
नगरपरिषद् झंगरपुर (राज.)

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।